

Northern Coalfields Limited

(Govt. of India Mini Ratna Company)

Post- Singrauli Colliery

Distt- Singrauli MP PIN-486889



नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)

पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,

जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160

Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: pro.ncl@coalindia.inwebsite : www.nclcil.in

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पत्र क्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2016-17/369

दिनांक- 11/11/2016

प्रेस विज्ञप्ति

कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी को मिला 'बेस्ट सीईओ' अवार्ड

भारत सरकार की मिनि रत्न कंपनी नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य को प्रतिष्ठित 'बेस्ट सीईओ - पीएसयू' अवार्ड से नवाज़ा गया है। श्री भट्टाचार्य को गत 8 नवम्बर को मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित 'फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स - 2016' समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मारुति सुजुकी के चैयरमैन श्री आर सी भार्गव और केकेआर इंडिया के सीईओ श्री संजय नायर ने कोल इंडिया के सीएमडी को यह पुरस्कार दिया।

आधुनिक तकनीक के सहयोग से कोल इंडिया का कोयला उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निदान में निभाई गई उनकी अहम भूमिका के लिए श्री भट्टाचार्य को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार चुनने वाले निर्णायक मंडल ने श्री भट्टाचार्य को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए सर्वसम्मति से 'पीएसयू कैटेगरी' में इस सम्मान के लिए चुना। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स अपनी कंपनी के सामने आने वाली समस्याओं को रचनात्मकता एवं नवीन ऊर्जा के साथ सामना करने वाले कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिए जाते हैं।

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री भट्टाचार्य ने कहा कि यह सम्मान कोल इंडिया का सम्मान है। नई चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना कर कंपनी ने जिन नए लक्ष्यों को प्राप्त किया है, यह पुरस्कार कंपनी के उन्हीं प्रयासों की मान्यता है। कोल इंडिया ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के सहयोग से ही यह गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने यह पुरस्कार सभी कोल इंडियंस को समर्पित किया है।

श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे जनवरी 2015 से कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं।

महाप्रबंधक (जनसंपर्क)